



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2012]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2019/आषाढ़ 7, 1941

No. 2012]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2019/ASHADHA 7, 1941

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

का.आ. 2226(अ).—यतः दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन-एफ की क्षेत्रीय विकास योजना में इसके तहत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.10.2017 की का.आ. सं. 3284(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

1. प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक (01) आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ था; और
2. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन-एफ की क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया।
3. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

निम्नलिखित सीमा विवरण के साथ, 9132.35 वर्ग मीटर भूमि का भूमि उपयोग 'मनोरंजनात्मक' (पी-2) से 'परिवहन' (टी-2) सुविधाओं में परिवर्तित किया जाता है:

अवस्थिति	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	दि.मु.यो.- 2021/क्षे.वि.यो. के अनुसार	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन-एफ के अंतर्गत बाहरी रिंग रोड और भक्ति वैदांत स्वामी मार्ग के तिराहे पर आस्था कुंज के समीप अवस्थित भूमि की तीन पॉकेटों के भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन।	पॉकेट-1=3070.93 पॉकेट-2=2947.63 पॉकेट-3=3113.79 कुल = 9132.35	मनोरंजनात्मक (पी-2-जिला पार्क)	परिवहन (टी-2)	उत्तर: जिला पार्क (आस्था कुंज) दक्षिण: 45 मीटर मार्गाधिकार बाहरी रिंग रोड पूर्व: 30 मीटर मार्गाधिकार वाला कैप्टन गोड मार्ग पश्चिम: जिला पार्क (आस्था कुंज)

[फा. सं. के-13011/19/2017-डीडी-1]

अनिल कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2019.

S.O. 2226(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi 2021/Zonal Development Plan of Zone F, regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India Extraordinary, as Public Notice vide no. S.O. 3284(E), dated 11th October, 2017 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of said notice.

1. One (01) objection/suggestion was received with regard to the proposed modifications; and
2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021/ Zonal Development Plan of Zone F.
3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

The Land Use of land measuring 9132.35 sq.m. is changed from **‘Recreational’** (P-2) to **‘Transportation’** (T-2) facilities with the following boundary description :—

Location	Area in sq. m.	Land use as per MPD-2021 & ZDP	Land use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Proposed change of land use of three pockets of land located near Astha Kunj at tri-junction of outer ring road and Bhakti Vedant Swami Marg, Zone - F.	Pkt-1=3070.93 Pkt-2=2947.63 Pkt-3=3113.79 Total=9132.35	Recreational (P-2-District Park)	Transportation (T-2)	North: District Park (Astha Kunj) South: 45 m Row Outer Ring Road. East : 30 M Row Cpt. Gaur Marg. West : District Park (Astha Kunj)

[F. No. K-13011/19/2017-DD-I]

ANIL KUMAR, Under Secy.